न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 43/2016

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बजरंगदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
2. रामेश्वर पुत्र बजरंगदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
3. सीताराम पुत्र बजरंगदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
4. कैलाशी पुत्री बजरंगदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
5. भूरीदेवी पत्नी बजरंगदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
6. लक्ष्मी पत्नी सोहन कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
7. मुकेश पुत्र सोहनदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
8. गोविन्द पुत्र सोहनदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
9. दशरथी पुत्री सोहनदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
10. काली पुत्री सोहनदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
11. प्रभाती पुत्री सोहनदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
12. मिठू पुत्री सोहनदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
13. संतोक पुत्री सोहनदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर।
14. मधुदेवी पत्नी कृष्णगोपाल कौम ब्राहमण निवासी मालपुरा जिला टोंक।
15. अंकुशकुमार पुत्र नोरतमल कौम जैन सा. देवली जिला टोंक।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री शुभकरण सिह चौधरी राजकीय अभिभाषक
2. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 14 (क्रेता) .

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 7.12.2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक द्वारा आदेश कमांक–1427–28 दिनांक 06.12.2012 द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा में भूरीदेवी पत्नी बजरंगदास, मोहनलाल, रामेश्वर, सीताराम, कैलाशी पि.बजरंगदास, लक्ष्मी पत्नी सोहन, मुकेश, गोविन्द, दशरथी, काली, प्रभाती, मिठू, संतोक पि0 सोहनदास कौम साधू निवासी खेजडी तहसील सावर जिला अजमेर को खसरा सं0 340 में से रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आवंटित की गई। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/2013 के पैरा सं0 14 के बिन्दू संख्या (।।) में मास्टर प्लान के ग्रामों में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध माना जाने से अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के पत्रांक भूमि आवंटन/203 दिनांक 4.7.2016 से आवंटित की गई भूमि के रेफरेन्स दर्ज करवाने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम

7/12/17
जिला कलक्टर
अजमेर

कोहडा, राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में दिनांक 5.6.2011 से मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 340 में से रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 929 दिनांक 18.02.2013 तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 13 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किये जाने से क्रेता अप्रार्थी संख्या 14 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 20.03.2013 व अप्रार्थी संख्या 15 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1018 दिनांक 05.07.2014 को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 14 की ओर से एडवोकेट राकेश अरोडा उपस्थित आये तथा अप्रार्थी सं. 1 से 13 एवं 15 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। उपस्थित अप्रार्थी सं. 14 के अभिभाषक ने प्रश्नगत भूमि बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से 13 द्वारा अप्रार्थी संख्या 14 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिये जाने से प्रश्नगत भूमि बाबत अप्रार्थी सं0 1 से 13 या उनके वारिसान का कोई हित प्रभावित नहीं होने से प्रकरण में बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया ।

सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक के आदेश क्रमांक–1427–28 दिनांक 06.12.2012 द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 340 में से रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 से 13 को किया गया। जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0 1 से 13 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 929 दर्ज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 13 द्वारा उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थी सं0 14 को विक्रय किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 932 द्वारा भूमि अप्रार्थी सं0 14 के नाम तत्पश्चात नामन्तरकरण संख्या 1018 दिनांक 05.07.2014 से अप्रार्थी सं0 15 का नाम दर्ज किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में कोहडा, मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि को आवंटन/नियमन योग्य नहीं माना। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/2013 के पैरा सं0 14 के बिन्दू संख्या (।।) में मास्टर प्लान के ग्रामों में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध माना जाने से अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा उक्त आवंटित भूमि के रेफरेन्स दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया। अतः नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 340 में से रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 से 13 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 929

जिला कलक्टर
अजमेर

दिनांक 18.02.2013 तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थी 14 के नाम स्वीकृत नामा0 सं0 932 दिनांक 20.03.2013 तत्पश्चात अप्रार्थी सं0 15 के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1018 दिनांक 05.07.2014 नियम विरूद्ध होने से रेफरेन्स स्वीकार फरमाते हुए आवंटन निरस्त करनवाने हेतु प्रकरण मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्रेषित किये जावें।

जवाब में क्रेता अप्रार्थी सं0 14 के अभिभाषक ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं0 340 में से रकबा 1.37 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय का आवंटन बीसलपुर बांध की डूब में अप्रार्थीगण की आराजियात को अवाप्त किये जाने के बदले में आवंटित की गई है जो कि भूमि के बदले भूमि दिये जाने से उपरोक्त आवंटन, कीमतन आवंटन है जिसके विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण पोषणीय नहीं है। ग्राम कोहडा को मास्टर प्लान का ग्राम घोषित किये जाने एवं स्थानीय निकायों के पैराफेरी क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने बाबत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जबकि उपरोक्त आवंटन आदेश पारित किये जाने से पूर्व सभी प्रकार की जांच किये जाने उपरान्त कींमतन आवंटन किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली इस न्यायालय के अधिनस्थ अधिकारी नहीं होने से उपरोक्त रेफरेन्स प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कोहडा, राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में दिनांक 5.6.2011 से मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 340 में से रकबा 1.37 हैक्टेयर का अप्रार्थी सं0 1 से 13 को किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 929 दिनांक 18.02.2013 तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थी संख्या 14 एवं 15 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 20.03.2013 तथा 1018 दिनांक 05.07.2014 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन एवं उक्त आवंटन की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 929 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 932 एवं 1018 नियमों में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने के साथ ही विवादित भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तगर्त धारा, 82 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 7.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

07/12/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर